



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2012, शनिवार/आश्विन 29—कार्तिक 5, 1934
No. 22] NEW DELHI, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2012, SATURDAY/ASVINA 29—KARTIKA 5, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 87.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में कैंटीन भंडार विभाग के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

एरिया डिपो,
कैंटीन भंडार विभाग,
1, पोरस रोड, जालंधर छावनी,
पंजाब-144 005

[सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा.1)]

समीर कुमार खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th October, 2012

S.R.O. 87.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Canteen Stores Department more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Area Depot,
Canteen Stores Department,
1, Porus Road,
Jalandhar Cantt.,
Punjab-144 005

[No. 1(1)/2011-D(OL-1)]

SAMEER KUMAR KHARE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 88.—आईसी-39756 कर्नल एन पी सिंह के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, जबलपुर की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, आफिसर कमांडिंग, जबलपुर स्टेशन द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-43431ए कर्नल एम एस खरखानिश, एस सी	14 फरवरी, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 88.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jabalpur by virtue of resignation of IC-39756 Col. NP Singh and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of the Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Jabalpur Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Jabalpur, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-43431A Col. MS Karkhanis, SC	February 14, 2012

[F. No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 89.—आईसी-47094 वाई कर्नल सन्दीप सुधेरा के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, रूडकी की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, आफिसर कमांडिंग, रूडकी स्टेशन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, रूडकी के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-50292के कर्नल राजेश सिंह	22 दिसम्बर, 2011

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 89.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Roorkee by virtue of resignation of IC-47094Y Col. Sandeep Sudhera and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief,

Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Roorkee Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Roorkee, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-50292K Col. Rajesh Singh	December 22, 2011

[F.No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 90.—आईसी-48256ए कर्नल राजेश नेगी के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, जबलपुर की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, आफिसर कमांडिंग, जबलपुर स्टेशन द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, जबलपुर के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-49072एन कर्नल दिलिप पान्डे	14 फरवरी, 2012

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 90.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jabalpur by virtue of resignation of IC-48256A Col. Rajesh Negi and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Jabalpur Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Jabalpur, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-49072N Col. Dilip Pandey	February 14, 2012

[F.No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 91.—श्री बसन्त कुरे के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, जबलपुर की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, कलक्टर, जबलपुर द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपर जिलाधिकारी

को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, जबलपुर के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव	21 अक्टूबर, 2011

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 91.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jabalpur by virtue of resignation of Shri Basant Kurre and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the Additional District Magistrate specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Collector Jabalpur on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (b) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Jabalpur, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	Shri O. P. Shrivastava	October 21, 2011

[F. No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 92.—आईसी-39175 कर्नल आर.एस. खाण्डपुर के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, जम्मू की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है। केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, आफिसर कमांडिंग, जम्मू स्टेशन द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, जम्मू के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-40741ए कर्नल बी एस संधू, एडमिन कमांडेंट	11 दिसम्बर, 2011

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 92.—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jammu by virtue of resignation of IC-39175 R. S. Khandpur and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Jammu Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (4) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Jammu, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-40741A Col. B.S. Sandhu, Adm. Comdt	December 11, 2011

[F. No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 93.—आईसी-48128एच कर्नल अजय सेठी, आईसी-40958 के कर्नल आर के शर्मा के त्यागपत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, अम्बाला की सदस्यता में दो रिक्तियां हुई हैं, केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में, स्टेशन कमांडर, अम्बाला स्टेशन द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिखित आदेश द्वारा नाम से नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को छावनी बोर्ड, अम्बाला के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम सं.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम	नामनिर्देशन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	आईसी-41467ए कर्नल बलजीत सिंह	04 जुलाई, 2011
2.	आईसी-30363ए कर्नल जे एस सक्कराम	10 दिसम्बर, 2011

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2012

S.R.O. 93.—Whereas two vacancies have occurred in the membership of the Cantonment Board, Ambala by virtue of resignation of IC-48128H Col. Ajay Sethi, IC-40958K Col. R. K. Sharma and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officers specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Station Commander, Ambala Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Ambala, namely :—

Sl. No.	Name of the nominated members	Date of nomination
(1)	(2)	(3)
1.	IC-41467A Col. Baljeet Singh	July 04, 2011
2.	IC-30363A Col. JS Sakkaram	December 10, 2011

[F. No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

3930 GI/12-2